



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 श्रावण 1934 (श०)
(सं० पटना 412) पटना, बुधवार, 22 अगस्त 2012

सं० 11/आ०-2 आ०नी० 05/2010(खंड) सा०प्र०—11491
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार चौधरी,
सरकार के संयुक्त सचिव
सेवा में,
स्थानिक आयुक्त,
बिहार भवन, नई दिल्ली।

पटना-15, दिनांक 16 अगस्त 2012

विषय:—स्थानिक आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली से जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र एवं आवास प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु पदाधिकारियों को प्राधिकृत करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिल्ली एवं इसके आस-पास के क्षेत्र में निवास करने वाले बिहार राज्य के प्रवासी नागरिकों की सुविधा हेतु स्थानिक आयुक्त, बिहार, नई दिल्ली कार्यालय से भी जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों को निर्गत करने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित की गई है:—

(क) पूर्ववत् Online आवेदन कहीं से भी दिया जा सकेगा।

(ख) आवेदन करते समय उन्हें यह विकल्प देना होगा कि वे प्रमाण-पत्र अंचल कार्यालय से प्राप्त करेंगे और/या बिहार भवन स्थित कार्यालय से।

(ग) आवेदन प्राप्त होने के पश्चात संबंधित अंचलाधिकारी पूर्ववत् उसे Download कर जाँच करेंगे एवं जाँचोपरांत प्रमाण-पत्र हस्ताक्षरित कर जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

(घ) जिला पदाधिकारी का कार्यालय प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात Online verification record करेगा जिसके आधार पर स्थानिक आयुक्त का एक अधीनस्थ पदाधिकारी अपने हस्ताक्षर से प्रमाण-पत्र निर्गत करेगा।

इसके लिए निम्नांकित पदाधिकारियों को आबंटित कार्य हेतु सक्षम प्राधिकार घोषित किया जाता है:-

सेवा का नाम	नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय सीमा	अपीलीय प्राधिकार	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु समय सीमा	पुनर्विलोकन प्राधिकार	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु समय सीमा
स्थानिक आयुक्त, बिहार, नई दिल्ली कार्यालय से जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण-पत्रों को प्राप्त करना।	स्थानिक आयुक्त के सचिव-सह-संपर्क पदाधिकारी	28 कार्यदिवस	उपस्थानिक आयुक्त- सह-मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी	15 कार्यदिवस	अपर स्थानिक आयुक्त	15 कार्य दिवस

विश्वासभाजन,
अजय कुमार चौधरी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 412-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>